

Roll Number

Total No. of Printed Pages : 32

B.A./B.Sc./B.Com. (Semester-III) Examination, 2024-25

(For Regular & NC) As per NEP 2020

EAFM**Paper Code : MDC-EFM-63T-101 OMR Code : 110**
(Financial Education for Everyone)**Time : 3.00 Hours****Section – A For Reg./NC: 40/50 Marks****Section – B For Reg./NC: 40/50 Marks****Total Maximum Marks For Reg./NC : 80/100****Instructions for Students (छात्रों के लिए निर्देश)****Students are required to read the instructions carefully before starting solving the question paper.****छात्रों को प्रश्न पत्र हल करना शुरू करने से पहले सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है।****Section – A (खण्ड – अ)**

1. Do not open the question booklet until you are asked to do so.	1. इस प्रश्न पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।
2. There are 50 Multiple Choice Questions (MCQ) in the question booklet. All 50 questions are mandatory to solve.	2. प्रश्न पुस्तिका में 50 प्रश्न (MCQ) हैं। सभी 50 प्रश्न हल करना अनिवार्य है।
3. Each question carries 0.80 mark for Regular and 1 mark for NC students.	3. प्रत्येक प्रश्न नियमित विद्यार्थियों के लिए 0.80 अंक का एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए 1 अंक का है।
4. There are four options for each questions. Fill the correct option in the OMR sheet.	4. प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प हैं। सही विकल्प ओ एम आर शीट में भरें।
5. Student have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the OMR Sheet. The circles on the OMR are to be darkened properly with black/blue ball pen only.	5. छात्र को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए एक गोले (बबल) को ओ.एम.आर. शीट में गहरा करना है। ओ.एम.आर. पर बने गोले को केवल काले/नीले बॉल पेन से ही काला करना होगा।
6. Fill in all the information (i.e. Roll No. etc.) or both OMR sheet and question booklet before starting the question paper.	6. प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले ओ.एम.आर. शीट और प्रश्न पुस्तिका दोनों पर सभी जानकारी (यानि रोल नंबर आदि) भरें।
7. Submit OMR to the invigilator after completion of examination.	7. परीक्षा अवधि पूरी होने पर ओ.एम.आर. पर्यवेक्षक के पास जमा करवायें।
8. Student can leave examination hall only after completion of examination.	8. छात्र परीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ही परीक्षा कक्ष छोड़ सकता है।

SET B

MDC-EFM-63T-101/32

(2)

1. 'RTGS' stand for :
 - (a) Ready time gross settlement
 - (b) Real time gross settlement
 - (c) Ready time grocery settlement
 - (d) Real time government service
2. Internet banking refers to :
 - (a) Opening of account through ATM
 - (b) Operation of account through internet
 - (c) Both (a) and (b)
 - (d) None of the above
3. ATM password to be shared only with :
 - (a) Spouse
 - (b) Obedient son
 - (c) Obedient daughter
 - (d) None of any
4. Loans from money lenders are :
 - (a) With high rate of interest
 - (b) No proper accounting
 - (c) No Transparency
 - (d) All of above
5. The main component of capital budgeting are :
 - (a) Budgeting
 - (b) Capital expenditure & budgeting
 - (c) Capital expenditure
 - (d) None of them

1. 'RTGS' से अभिप्राय—
 - (a) प्राथमिक तरंगे
 - (b) द्वितीयक तरंगे
 - (c) धरातलीय तरंगे
 - (d) गौण तरंगे
2. इन्टरनेट बैंकिंग का सन्दर्भ—
 - (a) ए.टी.एम. कार्ड द्वारा खाता खुलना
 - (b) इन्टरनेट द्वारा खाता खुलना
 - (c) (a) और (b) दोनों
 - (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
3. ए.टी.एम. पासवर्ड केवल इनके साथ शेयर किया जाए—
 - (a) पति/पत्नी के साथ
 - (b) आज्ञाकारी पुत्र के साथ
 - (c) आज्ञाकारी पुत्री के साथ
 - (d) किसी के साथ नहीं
4. साहूकार से ऋण प्राप्त करना—
 - (a) इन्टरनेट की उच्च दर के साथ
 - (b) कोई उचित लेखा-जोखा नहीं
 - (c) कोई पारदर्शिता नहीं
 - (d) उपरोक्त सभी
5. पूँजी बजटन का मुख्य घटक है—
 - (a) Budgeting
 - (b) Capital expenditure & budgeting
 - (c) Capital expenditure
 - (d) None of them

SET B

- | | |
|---|---|
| <p>6. The financial Institution IFCI established in :
(a) 1954
(b) 1945
(c) 1948
(d) 2021</p> <p>7. What is the full form of 'EPS'?
(a) Earning prefer stock
(b) Earning per share
(c) Equity private seller
(d) Exchange per share</p> <p>8. Which of these is/are scheduled commercial banks?
(a) Union Bank of India
(b) Punjab National Bank
(c) Standard Chartered Bank
(d) All of the above</p> <p>9. Imperial Bank of India became :
(a) Bank of Baroda
(b) RBI
(c) SBI
(d) PNB</p> <p>10. What is full form of 'SEBI'?
(a) Security & Exchange Board of India
(b) Security of Export Board of India
(c) Sales & Export By India
(d) Security & Exchange Before Intimation</p> | <p>6. वित्तीय संस्था IFCI स्थापित हुई थी—
(a) 1954
(b) 1945
(c) 1948
(d) 2021</p> <p>7. 'EPS' का पूरा नाम क्या है?
(a) पसंदीदा स्टॉक से कमाई
(b) प्रति शेयर कमाई
(c) इक्विटी निजी विक्रेता
(d) प्रति शेयर एक्सचेंज</p> <p>8. निम्न में से कौन-सी अनुसूचित व्यापारिक बैंक है/हैं?
(a) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
(b) पंजाब नेशनल बैंक
(c) स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
(d) उपरोक्त सभी</p> <p>9. इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया बनी—
(a) Bank of Baroda
(b) RBI
(c) SBI
(d) PNB</p> <p>10. 'SEBI' का पूर्ण नाम क्या है?
(a) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड
(b) भारतीय निर्यात बोर्ड की प्रतिभूति
(c) भारत द्वारा बिक्री एवं निर्यात
(d) सूचना से पूर्व प्रतिभूति एवं विनियम</p> |
|---|---|

11. Which of the following is the central banking institutions in India responsible for monetary policy and currency issuance?

- (a) SBI
- (b) PNB
- (c) RBI
- (d) Federal bank

12. A mutual fund possession money from multiple investors to invest in a diversified portfolio of stocks, bonds or other securities. What is the person or entity responsible for managing the fund's investment called?

- (a) Shareholders
- (b) Bondholder
- (c) Portfolio manager
- (d) Stakeholder

13. Where buyer and seller deal directly in securities?

- (a) Primary market
- (b) Secondary market
- (c) Tertiary market
- (d) Direct market

14. What is the primary purpose of financial planning?

- (a) To increase current income
- (b) To achieve financial goal
- (c) To minimize taxes
- (d) To speculate in the stock market

11. भारत में निम्न में से कौन-सी केन्द्रीय बैंकिंग संस्था है जो कि मौद्रिक नीति और करेंसी निर्गमन के लिए जिम्मेदार है—

- (a) SBI
- (b) PNB
- (c) RBI
- (d) Federal bank

12. म्यूचल फण्ड में प्राप्त राशि जो कि अनेक विनियोक्ताओं से प्राप्त होती है जिसे विविध स्टॉक, बॉन्ड्स और अन्य प्रतिभूतियों में विनियोग किया जाता है। जो व्यक्ति इस फण्ड के विनियोजन हेतु जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहते हैं?

- (a) शेयर होल्डर
- (b) बॉण्ड होल्डर
- (c) पोर्टफोलियो मैनेजर
- (d) स्टैक होल्डर

13. कहाँ क्रेता और विक्रेता प्रत्यक्ष रूप में प्रतिभूतियों का लेन-देन करते हैं?

- (a) प्राथमिक बाजार
- (b) द्वितीयक बाजार
- (c) तृतीयक बाजार
- (d) प्रत्यक्ष बाजार

14. वित्तीय नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

- (a) वर्तमान आय बढ़ाने के लिए
- (b) वित्तीय लक्ष्य हासिल करने के लिए
- (c) करों को कम करने के लिए
- (d) शेयर बाजार में सट्टा लगाने के लिए

SET B

15. What is the difference between life goals and financial goals?

- (a) Life goals are broader and encompass personal aspirations while financial goals are specific objectives related to money
- (b) Life goals are short term, while financial goals are long-term
- (c) Life goals are focused on career success, while financial goals are focused on personal development
- (d) Life goals and financial goals are synonymous

16. Which of the following is an example of a financial goals?

- (a) Travelling to Europe for a Vacation
- (b) Becoming a professional athlete
- (c) Learning a new language
- (d) Buying a home within 5 years

17. What is the Primary concern of Economics?

- (a) Maximization profits
- (b) Allocation resources essentially
- (c) Increase government intervention
- (d) Promote economic inequality

18. What is the term for the study of how people make choices to satisfy their needs and wants given the scarcity of resources?

- (a) Sociology
- (b) Psychology
- (c) Micro economics
- (d) Economics

15. लक्ष्यों और वित्तीय लक्ष्यों में क्या अन्तर है?

- (a) जीवन लक्ष्य व्यापक होते हैं और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को शामिल करते हैं जबकि वित्तीय लक्ष्य पैसे से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य होते हैं
- (b) जीवन लक्ष्य अल्पकालिक होते हैं, जबकि वित्तीय लक्ष्य दीर्घकालिक होते हैं
- (c) जीवन लक्ष्य कैरियर की सफलता पर केन्द्रित होते हैं, जबकि वित्तीय लक्ष्य व्यक्तिगत विकास पर केन्द्रित होते हैं
- (d) जीवन लक्ष्य और वित्तीय लक्ष्य समानार्थी हैं

16. निम्न में से कौन-सा वित्तीय लक्ष्यों का उदाहरण है—

- (a) छुट्टियों के लिए यूरोप की यात्रा करना
- (b) पेशेवर एथलीट बनना
- (c) नई भाषा सीखना
- (d) 5 साल के अंदर घर खरीदना

17. अर्थशास्त्र का प्राथमिक सम्बन्ध क्या है?

- (a) अधिकतम लाभ
- (b) संसाधनों का अनिवार्य रूप से आवंटन
- (c) सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाना
- (d) आर्थिक असमानता को बढ़ावा देना

18. व्यक्ति सीमित साधनों से अपनी आवश्यकताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के लिए चयन कैसे करता है इसके अध्ययन की दशा क्या है?

- (a) सामाजिक
- (b) मनोवैज्ञानिक
- (c) सूक्ष्म अर्थशास्त्र
- (d) अर्थशास्त्र

19. What is the full form of IMPS :
 (a) Immediate personal services
 (b) Immediate purchase of sales
 (c) Immediate payment services
 (d) Inter-monetary policy services
20. What do you mean by ELSS?
 (a) Equity linked saving scheme
 (b) Elected legislative special services
 (c) Electronics sales services
 (d) Equity linked sales services
21. RBI was established in the year :
 (a) 1947
 (b) 1935
 (c) 1957
 (d) 1965
22. Sovereign Gold Bonds scheme was introduced by the government in the year _____ :
 (a) 2001
 (b) 2015
 (c) 2020
 (d) 2022
23. Which of the following is financial depository institution?
 (a) Saving bank
 (b) Investment bank
 (c) Finance company
 (d) Pension fund
24. What is the meaning of 'NPS'?
 (a) New Payment System
 (b) New Pension Scheme
 (c) New Pension Services
 (d) New Price System

19. IMPS का पूर्ण स्वरूप क्या है?
 (a) तत्काल व्यक्तिगत सेवाएँ
 (b) बिक्री की तत्काल खरीद
 (c) तत्काल भुगतान सेवाएँ
 (d) अंतर मौद्रिक नीति सेवाएँ
20. ELSS का अर्थ क्या है?
 (a) इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम
 (b) निर्वाचित विधायी विशेष सेवाएँ
 (c) इलेक्ट्रॉनिक्स बिक्री सेवाएँ
 (d) इक्विटी लिंक्ड बिक्री सेवाएँ
21. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) स्थापित हुई थी—
 (a) 1947
 (b) 1935
 (c) 1957
 (d) 1965
22. सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना सरकार द्वारा शुरू की गई थी—
 (a) 2001
 (b) 2015
 (c) 2020
 (d) 2022
23. निम्न में से कौन-सी वित्तीय डिपोजिटरी संस्था है—
 (a) सेविंग बैंक
 (b) इन्वेस्टमेंट बैंक
 (c) फाइनेंस कम्पनी
 (d) पेंशन फण्ड
24. 'NPS' का अर्थ क्या है—
 (a) नई भुगतान प्रणाली
 (b) नई पेंशन योजना
 (c) नई पेंशन सेवाएँ
 (d) नई मूल्य प्रणाली

SET B

25. Which body regulates the stock market in India?
(a) RBI
(b) MFI
(c) BSC
(d) SEBI
26. Which of the following Banks launched the first mutual fund in India?
(a) SBI
(b) Canara bank
(c) Bank of India
(d) PNB
27. Who is father of modern economics?
(a) Marshall
(b) J.M. keynes
(c) Adm smith
(d) Dr. Man mohan singh
28. Which markets are stocks and bonds related?
(a) Money market
(b) Capital market
(c) Commercial banks
(d) Equity market
29. A market for buying and selling new securities for the first time.
(a) Financial market
(b) Capital market
(c) Primary market
(d) Secondary market
30. What is the full form of 'SIP'?
(a) Systematic Investment Plan
(b) Special Inventory Plan
(c) Sold Investment Shares
(d) Special Invited persons

25. भारत में स्टॉक मार्केट को विनियमित कौन-सी संस्था करती है?
(a) RBI
(b) MFI
(c) BSC
(d) SEBI
26. भारत में सर्वप्रथम म्यूचुल फण्ड प्रारंभ करने वाली बैंक निम्न में से कौन सी है—
(a) SBI
(b) Canara bank
(c) Bank of India
(d) PNB
27. आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कौन है?
(a) मॉर्शल
(b) J.M. keynes
(c) Adm smith
(d) डॉ॰ मनमोहन सिंह
28. कौन-सा बाजार स्टॉक और बॉण्ड्स से सम्बन्धित है—
(a) मनी मार्केट
(b) केपिटल मार्केट
(c) कॉमर्शियल बैंक
(d) इक्विटी मार्केट
29. एक बाजार जहाँ सर्वप्रथम नई प्रतिभूतियों का खरीदा बेचा जाता है—
(a) फाइनेंसियल मार्केट
(b) केपिटल मार्केट
(c) प्राथमिक मार्केट
(d) द्वितीयक मार्केट
30. 'SIP' का पूर्ण नाम क्या है?
(a) व्यवस्थित निवेश योजना
(b) विशेष इन्वेन्ट्री योजना
(c) बेचे गए निवेश शेयर
(d) विशेष आमंत्रित व्यक्ति

31. Which one is not finance company?
 (a) Hire purchase finance company
 (b) Mutual benefit finance company
 (c) Loan company
 (d) IRDA
32. What is 'OTP' is credit card transaction?
 (a) One time pincode
 (b) Odd transaction password
 (c) Owner is trading passcode
 (d) One time password
33. We should keep savings with bank because :
 (a) It is safe
 (b) Earn interest
 (c) Can be withdrawn any time
 (d) All of above
34. KYC means :
 (a) Know your customer
 (b) Know your character
 (c) Both of (a) and (b)
 (d) None of the above
35. Life insurance means :
 (a) Insurance of human
 (b) Insurance of life of human and cattle
 (c) Insurance of life of machines
 (d) All of above

31. कौन सी एक वित्तीय कम्पनी नहीं है?
 (a) हायर परचेज फाइनेंस कंपनी
 (b) म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी
 (c) लोन कम्पनी
 (d) IRDA
32. क्रेडिट कार्ड लेनदेन में ओटीपी क्या है?
 (a) वन टाइम पिनकोड
 (b) ओड ट्रांसेक्शन पासवर्ड
 (c) ओनर ट्रेडिंग पासकोड
 (d) वन टाइम पासवर्ड
33. हमें अपनी बचतें बैंक में रखनी चाहिये क्योंकि-
 (a) यह सुरक्षित है
 (b) ब्याज कमाएँ
 (c) इसे कभी भी निकाला जा सकता है
 (d) उपरोक्त सभी
34. KYC का अर्थ है-
 (a) नो योर कस्टूमेर
 (b) नो योर करेक्टर
 (c) (a) व (b) दोनों
 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
35. जीवन बीमा का अर्थ है-
 (a) मानव का बीमा
 (b) मानव और मवेशियों के जीवन का बीमा
 (c) मशीनों के जीवन का बीमा
 (d) उपरोक्त सभी

SET B

36. Aadhaar is :
- (a) 12 digit number card
 - (b) Identity proof issued by UIDAI
 - (c) Both (a) and (b)
 - (d) None of the above
37. PAN means :
- (a) A kind of utensil
 - (b) Primary account number
 - (c) Permanent account number
 - (d) None of the above
38. ATM can be used for :
- (a) Cash withdrawal
 - (b) Account inquiry
 - (c) Statement of account
 - (d) All of the above
39. What is Rupay Debit Card :
- (a) Domestic Debit Card
 - (b) Introduced by National Payment Corporation of India
 - (c) Accepted at all ATMs & POs Machines
 - (d) All of the above
40. Bank Pass - Book is :
- (a) Issue by bank
 - (b) Contains transaction details of bank account
 - (c) Show balance in account
 - (d) All of the above

36. आधार है-
- (a) 12 अंकों वाला नंबर कार्ड
 - (b) यूआईडीएआई द्वारा जारी पहचान प्रमाण
 - (c) (a) (b) दोनों
 - (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
37. पैन का अर्थ है-
- (a) एक प्रकार का बर्तन
 - (b) प्राथमिक खाता संख्या
 - (c) स्थायी खाता संख्या
 - (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
38. ए.टी.एम. का प्रयोग किया जाता है-
- (a) नकद निकासी
 - (b) खाता जाँच
 - (c) खाते का विवरण
 - (d) उपरोक्त सभी
39. रूपे डेबिट कार्ड क्या है-
- (a) घरेलू डेबिट कार्ड
 - (b) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू किया गया
 - (c) सभी एटीएम और पीओ मशीनों पर स्वीकार किया जाता है
 - (d) उपरोक्त सभी
40. बैंक पासबुक है-
- (a) बैंक द्वारा जारी
 - (b) बैंक खाते के लेन-देन का विवरण शामिल है
 - (c) खाते में शेष राशि दिखाएँ
 - (d) उपरोक्त सभी

- | | |
|--|---|
| <p>41. Gold and Silver Ornaments should be kept in bank lockers because :</p> <p>(a) It is safe</p> <p>(b) No risk of theft</p> <p>(c) Both (a) and (b)</p> <p>(d) None of the above</p> | <p>41. सोने और चाँदी के आभूषण बैंक लॉकर में रखने चाहिये क्योंकि—</p> <p>(a) सुरक्षित है</p> <p>(b) चोरी का डर नहीं</p> <p>(c) (a) और (b) दोनों</p> <p>(d) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>42. Which currency note has security thread :</p> <p>(a) ₹ 50</p> <p>(b) ₹ 100</p> <p>(c) ₹ 500</p> <p>(d) All of the above</p> | <p>42. किस करैन्सी नोट में सुरक्षा धागा होता है—</p> <p>(a) ₹ 50</p> <p>(b) ₹ 100</p> <p>(c) ₹ 500</p> <p>(d) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>43. The safest place for keeping money :</p> <p>(a) A pit dug in the ground</p> <p>(b) An iron box</p> <p>(c) Bank</p> <p>(d) Money lender</p> | <p>43. मुद्रा के लिए सुरक्षित स्थान है—</p> <p>(a) जमीन में गड्ढा खोदकर</p> <p>(b) एक लोहे का डिब्बा</p> <p>(c) बैंक</p> <p>(d) मनी लैण्डर</p> |
| <p>44. General insurance relates to insurance against :</p> <p>(a) Fire</p> <p>(b) Theft</p> <p>(c) Burglary</p> <p>(d) All of the above</p> | <p>44. सामान्य बीमा किससे सम्बन्धित है—</p> <p>(a) अग्नि</p> <p>(b) चोरी</p> <p>(c) लूटपाट</p> <p>(d) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>45. Currency notes are issued by :</p> <p>(a) RBI</p> <p>(b) NABARD</p> <p>(c) Public Sector Banks</p> <p>(d) Central Government</p> | <p>45. करैन्सी नोट जारी किये जाते हैं—</p> <p>(a) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया</p> <p>(b) NABARD</p> <p>(c) पब्लिक सेक्टर बैंक</p> <p>(d) केन्द्र सरकार</p> |

SET B

46. Coins are issued by :
(a) Government of India
(b) SBI
(c) PNB
(d) All of the above
47. Education loan is related :
(a) Cover tuition fee and expenses
(b) Are repayable after completion of course
(c) Granted for studies in India & Abroad
(d) All of the above
48. Who can open bank account?
(a) Indian citizen
(b) Non-resident Indian
(c) Illiterate
(d) All of the above
49. Which type of deposits earn higher interest rate?
(a) Current account
(b) Saving bank account
(c) Fixed deposit
(d) None of the above
50. 'NEFT' stands for :
(a) National electronic fund transfer
(b) National electric fund transfer
(c) National engineering future test
(d) National emergency fund trade
46. सिक्के जारी किये जाते हैं—
(a) भारत सरकार
(b) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
(c) पंजाब नेशनल बैंक
(d) उपरोक्त सभी
47. शिक्षा ऋण सम्बन्धित है—
(a) ट्यूशन फीस और खर्चों को कवर करता है
(b) कोर्स पूरा होने के बाद चुकाया जा सकता है
(c) भारत और विदेश में अध्ययन के लिए दिया जाता है
(d) उपरोक्त सभी
48. बैंक खाता कौन खोल सकता है?
(a) भारतीय नागरिक
(b) अनिवासी भारतीय
(c) अनपढ़
(d) उपरोक्त सभी
49. किस प्रकार की जमाओं पर उच्च ब्याज दर अर्जित की जाती है?
(a) करंट खाता
(b) जमा खाता
(c) फिक्स डिपॉजिट
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
50. 'NEFT' से अभिप्राय—
(a) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण
(b) राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक निधि हस्तांतरण
(c) राष्ट्रीय इंजीनियरिंग भविष्य परीक्षण
(d) राष्ट्रीय आपातकालीन निधि व्यापार

B.A./B.Sc./Com. (Semester-III) Examination, 2024-25**(For Regular and NC)****EAFM****Paper Code : MDC-EFM-63T-101****Financial Education for Everyone****Section – B (खण्ड – ब)****GENERAL INSTRUCTIONS (सामान्य निर्देश)**

- (i) No supplementary answer-book will be given to any candidate. Hence the candidate should write the answer precisely in the Main answer-book only.
किसी भी परीक्षार्थी को पूरक उत्तर-पुस्तिका नहीं दी जायेगी। अतः परीक्षार्थियों को चाहिये कि वे मुख्य उत्तर-पुस्तिका में ही समस्त प्रश्नों का उत्तर लिखें।
- (ii) In Section - B there are 6 questions the candidates are required to attempt 4 questions, each question carries 10 marks for regular students and 12.5 marks for non-collegiate students.
खण्ड-ब में कुल 6 प्रश्न हैं परीक्षार्थी को 4 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न नियमित परीक्षार्थी के लिए 10 अंक का है एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी के लिए 12.5 अंक का है।
- (iii) Make sure that your question booklet has all the 50 questions in Section - A and 6 questions in Section-B. Defection Booklet can be changed within 10 minutes.
प्रश्न-पुस्तिका में सभी खण्ड-अ में 50 प्रश्न एवं खण्ड-ब में 6 प्रश्न छपे हैं, इसकी जाँच कीजिए। त्रुटिपूर्ण पुस्तिका को 10 मिनट में बदलवाया जा सकता है।
- (iv) If there is any difference in English and Hindi version, the English version will be considered authentic.
यदि प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी रूपान्तरण को ही सही माना जाये।

Section – B (खण्ड – ब)

1. Define a financial plan and explain the characteristics of a sound financial plan. 10/12.5
वित्तीय योजना को परिभाषित कीजिये और सुदृढ़ वित्तीय योजना की विशेषताओं को समझाइये।
 2. Write short notes on the following : 10/12.5
निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये—
 - (a) Difference between business budget and National Budget. 5/6.25
व्यावसायिक बजट एवं राष्ट्रीय बजट में अन्तर
 - (b) Balancing between economic wants and resources. 5/6.25
आर्थिक आवश्यकताओं और संसाधनों के बीच संतुलन।
 3. Explain the functions of a commercial Bank. 10/12.5
एक व्यापारिक बैंक के कार्यों की व्याख्या कीजिये।
 4. Write an essay on recent trends in Indian Banking. 10/12.5
भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियों पर एक लेख लिखिये।
 5. Write an essay on Life corporation of India. 10/12.5
भारतीय जीवन बीमा निगम पर एक निबन्ध लिखिये।
 6. What is the role of SEBI in the Stock market in India? 10/12.5
भारत में स्टॉक मार्केट में SEBI की क्या भूमिका है?
-